

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल 2019—चैत्र 12, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल दिनांक 2 अप्रैल 2019

फा.क्र. 2249-2019-21-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 05 जिलों (मुरैना, अनूपपुर, कटनी, मंडला, एवं छिंदवाड़ा) के कलेक्टरों एवं जिला, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

दिनांक 27.03.19 को विधि विभाग को भेजे जाने वाले
प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये पत्रों की सूची

| क्रमांक | जिले का नाम | पत्र क्रमांक | दिनांक |
|---------|-------------|--------------|------------|
| 1 | मुरैना | 1466 | 23.03.2019 |
| 2 | अनूपपुर | 561 | 25.03.2019 |
| 3 | कटनी | 699 | 18.03.2019 |
| 4 | मंडला | 947 | 24.03.2019 |
| 5 | छिन्दवाड़ा | 781 | 22.03.2019 |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला-निर्वाचन-अधिकारी, जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वा.-2019-1466

मुरैना, दिनांक 23 मार्च 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019**विशेष-कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने बावत।**

जिले का नाम :- मुरैना

| क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|------|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1. | श्री गणेश कुमार | लेखाधिकारी | नगर निगम, मुरैना | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 2. | श्री वीरेन्द्र कुमार जैन | कार्यपालन यंत्री | सिचाई विभाग, मुरैना | —" |
| 3. | श्री विजय सिंह राठौर | सहा.प्राध्यापक | शास. कन्या महा.वि. मुरैना | —" |
| 4. | श्री आर.के. शर्मा | प्राचार्य | शा.उ.उ.मा.वि. पहाडगढ़ | —" |
| 5. | श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी | प्राचार्य | ऋषि गालब महा.वि. मुरैना | —" |
| 6. | श्री पुनीत चतुर्वेदी | सहा.प्राध्यापक | —" | —" |
| 7. | श्री इकबाल अहमद गौरी | —" | —" | —" |
| 8. | श्री प्रद्युमन सिंह सिकरवार | —" | —" | —" |
| 9. | श्री योगेन्द्र सिंह तोमर | —" | —" | —" |
| 10. | श्री राजीव कुमार भदकारिया | सहा.प्राध्यापक | शा.महा0वि0 मुरैना | —" |
| 11. | श्री आर0एल0 सखवार | सहा0प्राध्यापक | —" | —" |
| 12. | श्री लोकेश कुमार प्रसाद | प्राध्यापक | —" | —" |
| 13. | श्री पवन कुमार | लेवर निरीक्षक | श्रम विभाग, मुरैना | —" |
| 14. | श्री सौरभ सिंह कुशवाह | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत अम्बाह | —" |
| 15. | सुश्री श्रृष्टि भदौरिया | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत मुरैना | —" |
| 16. | श्री एम.पी. सिंह | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत कैलारस | —" |
| 17. | श्री गिराज शर्मा | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत सबलगढ़ | —" |
| 18. | श्री आकाश वशिष्ठ | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत कैलारस | —" |
| 19. | श्री प्रदीप पुष्पक | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत पोरसा | —" |
| 20. | श्री अरिदेम तोमर | समग्र सामाजिक | जनपद पंचायत सबलगढ़ | —" |

| | | सुरक्षा विस्तार अधिकारी | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|
| 21. | श्री सौरभ गर्ग | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत अम्बाह | —"— |
| 22. | श्री नरेन्द्र कुमार त्यागी | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत पहाडगढ़ | —"— |
| 23. | श्री शिवकुमार शर्मा | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | नगर निगम, मुरैना | —"— |
| 24. | श्री देवेन्द्र राजौरिया | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | नगर पालिका पोरसा | —"— |
| 25. | श्री दिलीप | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | नगर पालिका अम्बाह | —"— |
| 26. | श्री मनोज | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी | नगर पालिका सबलगढ़ | —"— |

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला-निर्वाचन-अधिकारी, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-561-19-ई-25-लो.सभा.-निर्वा.-2019

अनूपपुर, दिनांक 25 मार्च 2019

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी का प्रस्ताव का प्रपत्र

जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86-कोतमा

| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | श्री एस. पी. द्विवेदी | सहायक यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | द्वितीय श्रेणी | सेक्टर क्र. 11 लोहसरा |
| जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) | | | | | |
| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। |
| 1 | श्री बी.एल. द्विवेदी | अनुविभागीय अधिकारी | जल संसाधन विभाग जैतहरी | द्वितीय श्रेणी | सेक्टर क्र.06 पिपरिया |
| 2 | श्री अशुमन सिंह | सहायक यंत्री | नगर पालिका परिषद अनूपपुर | द्वितीय श्रेणी | सेक्टर क्र 08 सामतपुर |
| 3 | श्री रामसेवक हलवाई | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | नगरपालिका परिषद् पसान | द्वितीय श्रेणी | सेक्टर क्र.13 जुनुना |
| 4 | श्री एम.आई. राजदीन | व्याख्याता | कन्या उ. मा. वि. जैतहरी | द्वितीय श्रेणी | सेक्टर क्र.16 बौदपुर |
| 5 | श्री अशोक कुमार विनोदिया | कार्यपालन यंत्री | जल संसाधन विभाग अनूपपुर | प्रथम श्रेणी | सेक्टर क्र.19 खूँटाटोला |
| जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) | | | | | |
| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। |
| 1 | श्री डी.पी. शर्मा | सहायक प्राध्यापक | शास. महा विद्यालय पुष्पराजगढ़ | प्रथम श्रेणी | सेक्टर क्र. 10 तुलरा |
| 2 | श्री अरुण भारद्वाज | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत अनूपपुर | द्वितीय श्रेणी | रिजर्व |
| 3 | श्री प्रभात द्विवेदी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत कोतमा | द्वितीय श्रेणी | रिजर्व |
| 4 | श्री शरद अग्रवाल | जिला प्रबंधक | नागरिक आपूर्ति विभाग | द्वितीय श्रेणी | रिजर्व |
| 5 | श्री विनेश चंद्र मिश्रा | व्याख्याता | कन्या उ. मा. वि. जैतहरी | द्वितीय श्रेणी | रिजर्व |
| 6 | श्री सुनील कुमार पाण्डेय | समन्वयक | जनपद शिक्षा केन्द्र कोतमा | द्वितीय श्रेणी | रिजर्व |
| 5 | श्री शिवशंकर मिश्रा | ए एस एल आर | सहायक भू-अभिलेख अनूपपुर | तृतीय श्रेणी | सेक्टर मजिस्ट्रेट |
| 6 | श्री संदीप बघेल | ए एस एल आर | सहायक भू-अभिलेख अनूपपुर | तृतीय श्रेणी | सेक्टर मजिस्ट्रेट |
| जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86-कोतमा | | | | | |
| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 086-कोतमा |
| 1 | श्री अनिल भटनागर | उपयंत्री | जनपद पंचायत कोतमा | द्वितीय श्रेणी | स्थितिक निगरानी टीम |
| 2 | श्री के पी तिवारी | उपयंत्री | जल संसाधन कोतमा | द्वितीय श्रेणी | स्थितिक निगरानी टीम |
| 3 | श्री अनिल कुमार बबेले | उपयंत्री | जल संसाधन कोतमा | द्वितीय श्रेणी | फ्लाईंग स्क्वाड टीम |
| जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88-पुष्पराजगढ़ | | | | | |
| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 088-पुष्पराजगढ़ |
| 1 | श्री सुमभेद सिंह | उपयंत्री | जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | स्थितिक निगरानी टीम |
| 2 | श्री कुंदन सूर्यवंशी | उपयंत्री | जल संसाधन पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | स्थितिक निगरानी टीम |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------|--|
| 3 | श्री आर.ए. सोनी | उपयंत्री | जल संसाधन पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | स्थैतिक निगरानी टीम |
| 4 | श्री सुरेश शर्मा | उपयंत्री | जल संसाधन पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | स्थैतिक निगरानी टीम |
| 5 | श्री मुलायम चंद्र गुप्ता | उपयंत्री | लोक निर्माण पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | प्लाईग स्क्वाड टीम |
| 6 | श्री बसंत कुमार धुर्वे | उपयंत्री | लोक निर्माण पुष्पराजगढ़ | द्वितीय श्रेणी | स्थैतिक निगरानी टीम |
| जिले का नाम- अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87-अनूपपुर (अ.जं.जा.) | | | | | |
| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 088-पुष्पराजगढ़ |
| 1 | श्री जीवनलाल नंदा | उपयंत्री | जल संसाधन जैतठरी | द्वितीय श्रेणी | स्थैतिक निगरानी टीम |
| 2 | श्री समरजीत सिंह साकेत | उपयंत्री | जल संसाधन जैतठरी | द्वितीय श्रेणी | प्लाईग स्क्वाड टीम |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला-निर्वाचन-अधिकारी, जिला-कटनी, मध्यप्रदेश

क्र.-699-निर्वा.-लो.स.यु.-2019

कटनी, दिनांक 18 मार्च 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत सेक्टर/जोनल अधिकारियों की पूरक सूची जिला-कटनी (MOPD)

| क्र0 | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | मो0नं0 | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री एस0सी0 नाग | अनुविभागीय अधिकारी | पी0एच0ई0 स्लीनाबाद कटनी | पी0एच0ई0 | 9424379707 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री आत्म प्रकाश | कार्यप्रबंधक | आयुध निर्माणी कटनी | रक्षा विभाग | 9799498447 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 3 | सुश्री नैन्सी जैन | सहा0 यंत्री | पी0एच0ई0 कटनी | पी0एच0ई0 | 7000944081 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 4 | डॉ0 राहुल शर्मा | पशु चिकित्सक रीठी | उप संचा0 पशु चिकित्सक कटनी | पशु चिकित्सा | 9993001116 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री जयकुमार केवट | पशु चिकित्सक गणेशपुर | उप संचा0 पशु चिकित्सक कटनी | पशु चिकित्सा | 9575188043 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 6 | श्री सलमान हैदर अली | जिला प्रबंधक | नागरिक आपूर्ति नियम कटनी | खाद्य संवर्ग | 7770964748 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 7 | डॉ0 आदित्य अग्रवाल | पशु चिकित्सक कटनी | उप संचा0 पशु चिकित्सक कटनी | पशु चिकित्सा | 9917757783 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 8 | डॉ0 रवि कुमार सोनी | पशु चिकित्सक कटनी | उप संचा0 पशु चिकित्सक कटनी | पशु चिकित्सा | 9981153183 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 9 | डॉ0 दीपक शिव | पशु चिकित्सक कटनी | उप संचा0 पशु चिकित्सक कटनी | पशु चिकित्सा | 9826111383 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 10 | श्री विनय कुमार चतुर्वेदी | बी0आर0सी0 | जनशिक्षा केन्द्र डीमरखेड़ा | शिक्षा संवर्ग | 9893828629 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 11 | श्री रामविलास पटेल | उपप्रबंधक | परियोजना निर्देशक क्रिया0 ई0 कटनी | परियोजना निर्देशक | 9798714864 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 12 | ऋतु जैन | सहा0 यंत्री | आर0ई0एस0 वि0गढ़ | आर0ई0एस0 | 8962253334 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री अमय जैन | ए0पी0सी0 | जिला शिक्षा अधिकारी कटनी | शिक्षा संवर्ग | 9425466524 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री विनय दुबे | व्याख्याता | ज्ञानपुंज जिला शिक्षा | शिक्षा संवर्ग | 9893984762 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 15 | श्री विनोद दीक्षित | व्याख्याता | ज्ञानपुंज जिला शिक्षा | शिक्षा संवर्ग | 9893653598 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 16 | श्री के0सी0 सिंह | प्राचार्य | आस0एम0मा0 विद्या देवरी हटाई | शिक्षा संवर्ग | 9589017110 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 17 | श्री एस0 के0 मिश्रा | अनुविभागीय अधिकारी | उप संचा0 किसान कल्याण तथा कृ0वि0 कटनी | कृषि संवर्ग | 7000545640 | संपूर्ण जिले के लिए |
| 18 | श्री रामसुजान नट | सहा0 यंत्री | जलसंसाधन कटनी | सिंचाई संवर्ग | 6261079224 | संपूर्ण जिले के लिए |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला-निर्वाचन-अधिकारी, जिला-मण्डला, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वाचन-वि.का.दण्डा.-2019-947

मण्डला, दिनांक 24 मार्च 2019

लोक सभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- मण्डला

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री बी.के.सिंह | कार्यपालन यंत्री | जल संसा.संभाग मण्डला | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |
| 2 | श्री वाय.आर.झारिया | कार्यपालन यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मण्डला-1 | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |
| 3 | श्री नृपेन्द्र सिंह | सहायक यंत्री | कार्यपालन यंत्री जल संसा.संभाग मण्डला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |
| 4 | श्री आर.के.एस.चौहान | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत नैनपुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |
| 5 | श्री आशीष अग्रवाल | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत मण्डला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |
| 6 | श्री पी.राजोदिया | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत मोहगांव | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण मण्डला जिले के लिए |

जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला-निर्वाचन-अधिकारी, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वाचन-2019-781

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2019

लोक सभा निर्वाचन 2019**विशेष कार्यापालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव****जिले का नाम - छिंदवाड़ा**

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है। |
|--------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री लखन कुमार ब्रम्हवंशी | उद्यान विकास अधिकारी | उद्यान विकास अधिकारी तामिया | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री रत्नेश वैद्य | परियोजना विकास अधि० | महिला एवं बाल विकास हरई | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री अविनाश पारासर | ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी | ग्रामिण उद्यान विकास अधिकारी अमरवाड़ा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री विनोद प्रजापति | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी सौंसर | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री वैभव देशमुख | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी लोधखेडा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 6 | श्री राजाराम बरठे | नगर पालिका अधिकारी | नगरपालिका अधिकारी मोहगांव | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 7 | श्री इकबाल अहमद | उपयंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रि. खिरसाडोह | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 8 | श्री इन्दर कुमार जैन | उपयंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रि. खिरसाडोह | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 9 | श्री विनय शुक्ला | उपयंत्री | नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 10 | श्री धनीराम तुमधाम | ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी | वरि.कृषि विकास अधिकारी पांडुर्णा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 11 | श्री देवेन्द्र कुमार ठाकरे | ग्रामिण उद्यान विकास अधिकारी | ग्रामिण उद्यान विकास अधिकारी पांडुर्णा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 12 | श्री संजय कैथवास | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरई | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री डी.एल. उकासा | विकास खण्ड अधिकारी | जनपद पंचायत अमरवाडा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री अरविंद बोरकर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहखेड | द्वितीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 15 | श्री सी.एल. मरावी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिन्दवाड़ा | द्वितीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 16 | श्री देवेन्द्र दिक्षित | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी परासिया | द्वितीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 17 | श्री नवनीत पाण्डे | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | मुख्य नगरपालिका अधिकारी पांडुर्णा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 18 | श्री बुध राव नागले | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री लोक स्वा. यांत्रिकी पांडुर्णा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 19 | स्मिता इंदौरकर | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | नगरपालिका परिषद चौरई | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| 20 | श्री गणेश प्रसाद डेहरिया | प्रभारी नायब तहसीलदाल | तहसील कार्यालय सौसर | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 21 | श्री प्रेम प्रकाश दुबे | प्रभारी नायब तहसीलदाल | तहसील कार्यालय सौसर | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 22 | श्री महेश कुमार बट्टी | प्रभारी नायब तहसीलदाल | तहसील कार्यालय सौसर | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 23 | श्री गोपी चंद पवार | सशषत नायब तहसिलदार | तहसील कार्यालय चौरई | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 24 | श्री राजेश उईके | उपयंत्री | संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 25 | श्री झनकलाल कवरेती | उपवनक्षेत्रपाल | पूर्व वनमण्डल छिन्दवाड़ा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 26 | श्री डी.पी.खण्डेलकर | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | नगरपालिका दमुया | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |
| 27 | श्री धनराम उईके | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद अमरवाड़ा | तृतीय श्रेणी | संपूर्ण जिले के लिए |